

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 13-04-2021

सहारनपुर पुलिस द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 की तैयारियों एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ बनायें रखने हेतु 24 घंटो के

अन्दर की गई कार्यवाही:-

- जनपद पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 107/116 द0प्र0सं0 के तहत 10 वादो में कुल 40 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।
- जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आबकारी, आर्म्स एक्ट, चोरी एवं गौवध अधिनियम आदि अपराधो में वांछित चल रहे कुल 21 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
- थाना नागल, नकुड़, नानौता, गागलहेड़ी एवं थाना मिर्जापुर द्वारा अवैध शराब, एवं गौवध अधिनियम में कुल 08 अभियुक्तो को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया।
- आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 की प्रक्रिया को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत एवं कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ बनाये रखने हेतु 24 घंटे मे कुल 02 लाईसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये।
- आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 की प्रक्रिया को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जनपद के समस्त थाना प्रभारियों एवं क्षेत्राधिकारियों द्वारा क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहते हुए आम जनमानस को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को कोविड-19 प्रोटोकाल के नियमों का पालन करते हुये शांतिपूर्ण तरीके संपन्न कराने हेतु अपील की जा रही है । इसके अतिरिक्त जनपद के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा भी अपराध की रोकथाम एवं कानून-व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहते हुये मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर क्षेत्रवासियों को कोविड-19 के नियमो का पालन कराया जा रहा है।

प्रेस नोट दिनांक 13-04-2021

थाना नागल पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 12-04-2021 को थाना नागल पुलिस द्वारा ग्राम गांगनोली से गन्ना मिल की ओर से अभि० 1-देवेन्द्र कुमार उर्फ कालू पुत्र प्रमोद व 2-हरजन्दर सिंह उर्फ डेविड पुत्र राजेश निवासी गांगनोली थाना नागल, सहारनपुर को 42 पक्के देशी शराब तथा उक्त शराब का मतदाताओं को प्रलोभन देते समय गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नागल पर मु०अ०सं० 73,74/21 धारा 60(1) आबकारी अधि० व 171ई भादवि पंजीकृत किया गया।

थाना नकुड पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 12-04-2021 को थाना नकुड पुलिस द्वारा सरसावा तिराहे के पास कस्बा नकुड से अभि० रविन्द्र उर्फ भोला पुत्र मदनपाल निवासी आसराखेडी थाना नकुड, सहारनपुर को 24 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु०अ०सं० 155/21 धारा 63 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना नानौता पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 12-04-2021 को थाना नानौता पुलिस द्वारा ग्राम जैदपुरा से अभि० आन्नद पुत्र सोमपाल निवासी जैदपुरा थाना नानौता, सहारनपुर को 24 पेटी देशी शराब हरियाणा मार्का तथा उक्त शराब का मतदाताओं को प्रलोभन देते समय गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु०अ०सं० 123/21 धारा 63 आबकारी अधि० व 171ई भादवि पंजीकृत किया गया।

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा गोकशी करते 02 अभियुक्त अवैध तमंचे सहित गिरफ्तार :-

दिनांक 12-04-2021 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा नौसेरा पुल के पास विभाग की जमीन से अभि० 1-इसरार पुत्र महमूद व 2-हसीन पुत्र हफीज निवासी महमूद मजर थाना मिर्जापुर, सहारनपुर को गोकशी करते समय कब्जे से 02 छुरी, 02 रस्सी, 01 कुल्हाड़ी व 02 रास, 01 गाय, 01 बैल जिन्दा मय 01 तमंचा व 01 जिन्दा कार० .315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु०अ०सं० 87/21 धारा 3/8 गोवध अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० व मु०अ०सं० 88/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 12-04-2021 को थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा बुडढाखेडा अहीर गांव गेट से गांव की तरफ से अभि० धनकतर पुत्र स्व० अतर सिंह निवासी ग्राम बुडढाखेडा अहीर थाना गागलहेडी, सहारनपुर को 22 पक्के देशी शराब यूपी मार्का तथा उक्त शराब का मतदाताओं को प्रलोभन देते समय गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर मु०अ०सं० 106/21 धारा 60 आबकारी अधि० व 171ई भादवि पंजीकृत किया गया।

मीड़िया / सोशल मीडिया
सेल
सहारनपुर।